

## बॉन जलवायु सम्मेलन 2024

### प्रलिस के लयि:

लॉस एंड डेमेज फंड, कॉन्फरेंस ऑफ पार्टीज़ (COP 28), नया सामूहिक परमाणित लक्ष्य, [जीवाशम ईधन](#)

### मेन्स के लयि:

जलवायु वतित एवं उसका महत्त्व, पर्यावरण परदूषण एवं क्षरण

[स्रोत: इडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यो?

हाल ही में जर्मनी के बॉन में आयोजित जलवायु बैठक में नए जलवायु वतित लक्ष्य को परभाषित करने में कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई।

- जलवायु संकट से नपिटने के लयि आवश्यक वतितपोषण से संबंधित मुद्दों पर देशों को अभी भी प्रगति करनी शेष है।

## जलवायु वतितपोषण क्या है?

### ■ परचिय:

- यह [जलवायु परिवर्तन](#) को कम करने अथवा उसके [अनुकूल कार्रवाई](#) के लयि बड़े पैमाने पर आवश्यक नविश को संदर्भित करता है।
  - शमन में [ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन](#) को कम करना शामिल है, जैसे [नवीकरणीय ऊर्जा](#) को बढ़ाना एवं वन क्षेत्र का वसितार करना।
  - अनुकूलन में [जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से होने वाली क्षति](#) को रोकने अथवा न्यूनतम करने की कार्रवाई करना शामिल है, जैसे समुद्र-स्तर में वृद्धि से तटीय समुदायों की रक्षा के लयि बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।

### ■ वर्तमान जलवायु वतितपोषण राशिपर सहमति:


- वर्ष 1992 में स्थापित [जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन \(UNFCCC\)](#) द्वारा उच्च आय वाले देशों को विकासशील देशों को जलवायु वतित प्रदान करने का निर्देश दिया।
- कोपेनहेगन प्रतबिद्धता, 2009 के अनुसार, विकसित देश वर्ष 2020 तक विकासशील देशों को [प्रतिवर्ष 100 बलियन अमेरिकी डॉलर](#) उपलब्ध कराने पर सहमत हुए थे।
- [हरति जलवायु कोष](#) की स्थापना वर्ष 2010 में जलवायु वतित प्रदान करने के लयि एक महत्त्वपूर्ण तंत्र के रूप में की गई थी।
- वर्ष 2015 के [पेरिस समझौते](#) में [100 बलियन अमेरिकी डॉलर](#) के लक्ष्य निर्धारित किया और साथ ही इसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया।

### ■ राशि में वृद्धि की आवश्यकता:

- UNFCCC, 2021 रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों को जलवायु कार्य योजनाओं को लागू करने के लयि वर्ष 2021 से वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष लगभग [6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता](#) होगी और साथ ही वैश्विक [निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था संक्रमण](#) के लयि वर्ष 2050 तक प्रतिवर्ष लगभग 4-6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।
- [अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी \(IRENA\)](#) के अनुसार, दुबई में हुई सहमति के अनुसार, अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के लयि वर्ष 2030 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आने का अनुमान है।
- इन अनुमानों से अनुमान लगाया गया है कि यह वार्षिक आवश्यकता 5-7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5-7% के बराबर है, जो [नषिक्रयिता की बढ़ती लागत को उजागर](#) करता है।
- भारत द्वारा अनुदान तथा रथियती वतित पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिवर्ष कम-से-कम 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का एकनया [सामूहिक परमाणित लक्ष्य \(NCQG\)](#) प्रस्तावित किया गया है।

# CLIMATE FINANCE FOR DEVELOPING COUNTRIES

## Climate finance mobilised by developed countries, in USD billions



**Bilateral public climate finance:** provided by donor countries' development finance agencies and institutions. **Multilateral public climate finance:** provided by multilateral development banks (MDBs) and climate funds governed by multiple national governments. **Export credits:** provided by developed countries' official export credit agencies for the sale of climate-related goods and services. **Private finance:** mobilised by bilateral and multilateral public climate finance. Public climate finance can leverage private finance through risk mitigation instruments, such as guarantees and insurance.

**Source:** OECD (2023), Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-2021.

### ■ जलवायु वित्तपोषण के पक्ष में तर्क:

- विकासशील देशों का तर्क है कि विकसित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिये, क्योंकि पिछले 150 वर्षों में विकसित देशों द्वारा किये गए उत्सर्जन के कारण ही जलवायु समस्या उत्पन्न हुई है।
- उच्च आय वाले देशों ने जलवायु वित्त के लिये अपनी वित्तीय प्रतज्ञाओं को अभी तक पूरा नहीं किया है, क्योंकि प्रदान किया गया अधिकांश वित्त ऋण के रूप में है।
  - **आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)** की एक हालिया जारी रिपोर्ट में विकसित देशों द्वारा वर्ष 2022 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का अपना वादा पूरा कर लिया है। हालाँकि इसका 69% हिस्सा ऋण के रूप में प्रदान किया गया।

## जलवायु वित्त से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

### ■ विकसित और विकासशील देशों के बीच विवाद:

- योगदान पर बहस: UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत, UNFCCC के अनुलग्नक 2 में सूचीबद्ध केवल 25 देश, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ, विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने के लिये बाध्य हैं।
  - कई अन्य देश अब 1990 के दशक की तुलना में आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं, जैसे चीन (वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था), तेल समृद्ध खाड़ी देश तथा दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देश अनुलग्नक 2 का हिस्सा नहीं हैं।
- जबकि विकासशील देश पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 का हवाला देते हैं, जो जलवायु वित्त को विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर प्रवाहित करने का आदेश देता है।
  - **प्राप्तकर्ता को प्राथमिकता देना:** विकसित देश जलवायु वित्त के लिये सबसे कमज़ोर देशों, जैसे कि सबसे कम विकसित देश और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों को प्राथमिकता देने की वकालत करते हैं, जबकि विकासशील देशों का दावा है कि सभी विकासशील देशों को सहायता हेतु पात्र होना चाहिये।

- **जलवायु वित्त की परभाषा और प्रकृति:**
  - विकासशील देश जलवायु वित्त की परभाषा पर स्पष्टता की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि इसमें विकास वित्त को शामिल नहीं किया जाना चाहिये तथा दोहरी गणना के प्रति आगाह किया जाना चाहिये।
- **शमन और अनुकूलन के मुद्दे:**
  - शमन (उत्सर्जन में कमी) और अनुकूलन (जलवायु प्रभावों के अनुसार समायोजन) के लिये वित्तपोषण के बीच संतुलन विवाद का एक प्रमुख मुद्दा है।
  - वर्तमान में जलवायु वित्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा जैसी शमन परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है।
    - हालाँकि विकासशील देशों का तर्क है कि समुद्र के बढ़ते स्तर और चरम मौसम की घटनाओं जैसे मौजूदा प्रभावों को देखते हुए, अनुकूलन उनके तत्काल अस्तित्व के लिये महत्वपूर्ण है।

## नया सामूहिक परमाणित लक्ष्य (NCQG) क्या है?

- यह वर्ष 2015 में COP21 में प्रस्तावित एक नया वार्षिक वित्तीय लक्ष्य है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 के बाद जलवायु वित्त लक्ष्य निर्धारित करना है, जिसे विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने के लिये वर्ष 2025 से पूरा करना होगा।
  - यह **प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की वार्षिक प्रतिबद्धता का स्थान लेगा, जिसे विकसित देशों ने **कोपेनहेगन प्रतिबद्धता, 2009** और **पेरिस समझौते (2015)** के तहत वचन दिया था, लेकिन इसे पूरा करने में विफल रहे हैं।
- NCQG की राशि **नवंबर 2024 में बाकू, अज़रबैजान में आयोजित** होने वाले COP29 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण वार्ता बटु होगी।
  - NCQG वार्ता का उद्देश्य एक सामूहिक राशि निर्धारित करना है, जिसे अमीर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील गरीब देशों में शमन, अनुकूलन और अन्य जलवायु कार्रवाई पर्याप्तों के लिये वार्षिक रूप से एकत्रित करना होगा।
- विकासशील देशों के लिये पर्याप्त NCQG आँकड़ा हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्याप्त जलवायु वित्त की कमी प्रभावी जलवायु योजनाओं को लागू करने और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के वरिद्ध लचीलेपन के निर्माण में एक बड़ी बाधा रही है।

## जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)

- यह पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में हानिकारक मानव-प्रेरित व्यवधानों को रोकने के लिये **ग्रिनहाउस गैस सांद्रता** को कम करने के लिये एक वैश्विक पर्यावरण संधि है।
- इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 1992 में अनुमोदित किया गया था। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।
- UNFCCC का सर्वोच्च नरिणय लेने वाला निकाय, **पक्षकारों का सम्मेलन (COP)** है, जो वार्षिक बैठकें आयोजित करता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रगति का आकलन करने के लिये सभी 197 दलों के प्रतिनिधियों का आवाहन करता है।
- वर्ष 1993 में भारत UNFCCC का एक पक्षकार बन गया, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा था।

# जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

## जलवायु वित्त के सिद्धांत

- प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है,
- 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

## UNFCCC द्वारा

### समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- क्योटो प्रोटोकॉल (2001):**
  - अनुकूलन कोष (AF):** विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
  - स्वच्छ विकास तंत्र (CDM):** विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- हरित जलवायु कोष (GCF):** वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
  - इसके अंतर्गत कोष- अल्प विकसित देश कोष (LDCF) और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)
- दीर्घकालिक जलवायु वित्त:**
  - कानकून समझौता (वर्ष 2010):** लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना।
  - पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- लॉस एंज डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमजोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

## विश्व बैंक के

### अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- सामरिक जलवायु कोष

### जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)	कमजोर भारतीय राज्यों के लिये
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)	स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)
राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)	आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को खत्म करना
अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)	UNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्य
जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)	वैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है

## जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- स्वीकृतियों की धीमी दर,
- व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।

## दृष्टि भेन्स प्रश्न:

प्रश्न: जलवायु परिवर्तन विकासशील देशों पर असमान रूप से प्रभाव डालता है, भले ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उसका ऐतिहासिक योगदान कम रहा हो। जलवायु संबंधी कमियों को दूर करने में अनुकूलन वृत्ति के महत्त्व पर चर्चा कीजिये और इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के तरीके सुझाइये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. इस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किये और यह वर्ष 2017 से लागू होगा।
2. यह समझौता ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग-पूर्व स्तर से 2°C या कोशिश करें कि 1.5°C से भी अधिक न होने पाए।
3. विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये विकासशील देशों की सहायता के लिये वर्ष 2020 से प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: B

**??????????:**

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

प्रश्न. नवंबर, 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरति ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिये। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में यह वचन पहली बार कब दिया गया था? (2021)